



TRF LIMITED

March 1, 2023

The Secretary, Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001.
Maharashtra, India.
Scrip Code: **505854**

The Manager, Listing Department National
Stock Exchange of India Limited Exchange
Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1,
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai - 400 051.
Maharashtra, India.
Symbol: **TRF**

Dear Madam, Sir(s),

Newspaper Advertisement – Postal Ballot Notice of TRF Limited

Please find enclosed herewith the newspaper advertisement for the Postal Ballot Notice of TRF Limited published in the following newspapers:

1. Financial Express (English)
2. Uditvani (Hindi)

This is for your information and records.

Yours faithfully,

TRF LIMITED

Prasun Banerjee
Company Secretary

Encl: As above

IDFC First Bank Limited

(erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)
 CIN : L65110TN2014PLC097792
 Registered Office : KRM Towers, 8th Floor, Harrington Road, Chetpet, Chennai- 600031.
 Tel : +91 44 4564 4000 | Fax : +91 44 4564 4022

Notice under Section 13 (2) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

The following borrowers and co-borrowers advised the below mentioned secured loans from IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) The loans of the below-mentioned borrowers and co-borrowers have been secured by the mortgage of their respective properties. As they have failed to adhere to the terms and conditions of the respective loan agreements and had become irregular, their loan were classified as NPA as per the RBI guidelines. Amounts due by them to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) are mentioned as per respective notices issued more particularly described in the following table and further interest on the said amounts shall also be applicable and the same will be charged as per contractual rate with effect from their respective dates.

Sr No.	Loan Account No.	Type of Loan	Name of borrowers and co-borrowers	Section 13 (2) Notice Date	Outstanding amount as per Section 13 (2) Notice	Property Address
1	12700610 5542242 4997697	LOAN AGAINST PROPERTY	1. MOHAN MOTOR BUSINESS PRIVATE LIMITED 2. ANJU BAJAJ 3. UMA BAJAJ 4. GREENFIELD VANUJYA PRIVATE LIMITED 5. HARSHIT BAJAJ 6. METRO NIKETAN PRIVATE LIMITED 7. PRADIP KUMAR BAJAJ 8. PRADIP SONS HUF 9. ROSHNI NIRMAM PRIVATE LIMITED 10. SUNRISE CONCLAVE PRIVATE LIMITED 11. SWARAJ VANUJYA PRIVATE LIMITED 12. MOHAN LAL BAJAJ	11.02.2023	11,87,93,781.4/-	ALL THAT PART AND PARCEL OF "MAHINDRA WORK SHOP", LAND MEASURING ABOUT 183.14 DECIMALS AS PER DEEDS (BUT AS PER MUTATION 177 DECIMALS), BE THE SAME A LITTLE MORE OR LESS, TOGETHER WITH STRUCTURE STANDING THEREON, LYING AND SITUATE AT KONA EXPRESS WAY, KONA TRUCK TERMINUS, MOUZANIBRA AND COMPRISED IN R.S. DAG NOS. 3564, 3566, 3567, 3569, 3572, 3573, 3575 & 3576 UNDER R.S. KHATIAN NOS. 1559, 346, 808 & 810 CORRESPONDING TO L.R. DAG NOS. 3594, 3596, 3597, 3600, 3603, 3604, 3606 & 3607 UNDER L.R. KHATIAN NOS. 1624, 1864, 527, 1188, & 443 AT PRESENT 6828, J.L. No. 51, TOUZI NO. 826, PARGANA-BORO, P.S.-DOMJUR, IN THE DISTRICT OF HOWRAH, STATE-WEST BENGAL-711403, AND BOUNDED AS: EAST: VACANT LAND, WEST: VACANT LAND, NORTH: 20 FT. WIDE COMMON PASSAGE, SOUTH: VACANT LAND

You are hereby called upon to pay the amounts to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited) as per the details shown in the above table with contracted rate of interest thereupon from their respective dates and other costs, charges etc. within 60 days from the date of this publication, failing which the undersigned shall be constrained to initiate proceedings, under Section 13 (4) and section 14 of the SARFAESI Act, against the mortgaged properties mentioned hereinabove to realize the amount due to IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited). Further you are prohibited under Section 13 (13) of the said Act from transferring the said secured assets either by way of sale/lease or otherwise.

Date : 01.03.2023
 Place : WEST BENGAL

Sd/-
 Authorized Officer
 IDFC FIRST Bank Limited (erstwhile Capital First Limited, amalgamated with IDFC Bank Limited and presently known as IDFC First Bank Limited)



BERGER PAINTS INDIA LIMITED

Loss of Share Certificates

NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificates of Berger Paints India Limited having registered office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata - 700 017 have been lost; misplaced; stolen and/or are untraceable :

Member's Regd. folio	Share Certificate No(s.)	No. of Shares	Distinctive Nos. From To
21EM0264	410272	960	1094753799 - 1094754758

Application has been made by the registered Shareholder to the Company for issue of duplicate share certificate in replacement of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate as aforesaid is required to lodge with the Company at the above address or to its Registrars C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata-700 019 his/her/their objection thereto within 15 days from the date of publication.

SRIDHAR GANESH
 S/O. SUBBIEER GANESH
 Flat 2A Canopy
 97, Poes Garden
 Chennai - 600086

Date : 1.3.2023

HOWRAH MUNICIPAL CORPORATION

4, MAHATMA GANDHI ROAD, HOWRAH-711011
 ☎ 033 2638 3211/12/13, 033 2641 0830 www.hmcgov.in

Abridged Tender Notice for Paper Publication

No. WB-44/TN/ED/E0B/2022-2023 Date: 23.02.2023
 Executive Engineer, HMC invites tender for 1 (One) Nos. Civil Works at H.M.C office area Intending tenderers are to submit offers along with PAN card, Trade License, Contractor License up to date GST Certificate & Return (Current Quarter), PTCC, ITCC & credentials.
 Bid submission (online) start date : 24.02.2023 from 6.00 P.M.
 Bid submission (online) closing date : 22.03.2023 upto 5.00 P.M.
 Please visit: <https://wbtdenders.gov.in>
 346(3)/22-23
 28.2.23
 Executive Engineer
 Howrah Municipal Corporation

BERGER PAINTS INDIA LIMITED

Loss of Share Certificates

NOTICE

Notice is hereby given that the following Share Certificates of Berger Paints India Limited having registered office at Berger House, 129, Park Street, Kolkata - 700 017 have been lost; misplaced; stolen and/or are untraceable :

Member's Regd. folio	Share Certificate No(s.)	No. of Shares	Distinctive Nos. From To
J03016	407532	1080	408844839 - 408845918
	411254	432	1096175575 - 1096176006

Application has been made by the registered Shareholder to the Company for issue of duplicate share certificate in replacement of the above. Any person having any objection to the issue of duplicate Share certificate as aforesaid is required to lodge with the Company at the above address or to its Registrars C B MANAGEMENT SERVICES (P) LTD., P-22, Bondel Road, Kolkata - 700 019 his/her/their objection thereto within 15 days from the date of publication.

JAYANTHI LAKSHMI DEVI
 W/O. JAYANTHI NARASIMHAIAH
 H. No. 44/153, Prakash Nagar
 Kurnool, Andhrapradesh - 518001

Date : 1.3.2023

A TATA Enterprise

Corporate Identity No. (CIN) L74210JH1962PLC00700
 Regd. Office: 11, Station Road, Burmahines, Jamshedpur, Jharkhand-831007
 Tel : +91 657 2345277, Email: comp_sec@trf.co.in, Website: www.trf.co.in

NOTICE TO POSTAL BALLOT

Members of TRF Limited (the Company) are hereby informed that pursuant to Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (Act) read with Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, (including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force) (Rules), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations), Secretarial Standard on General Meetings issued by The Institute of Company Secretaries of India (SS-2), each as amended, and in accordance with the guidelines prescribed by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) for conducting postal ballot process through e-voting vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021 and 11/2022 dated December 28, 2022, in view of the COVID-19 pandemic (collectively the MCA Circulars), and pursuant to the other applicable laws and regulations, the Company has on February 28, 2023, completed despatching the Postal Ballot Notice dated February 27, 2023 (Postal Ballot Notice) for seeking approval to transact the Business as set out below and as contained in the Notice, by e-mail only, to the Members whose names appear in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (hereinafter collectively referred to as Depositories) and whose e-mail addresses are available with the Depositories, the Company or Registrar and Share Transfer Agent of the Company viz. TSR Consultants Private Limited (RTA) as on Friday, February 17, 2023 (Cut-Off Date) (Eligible Members). The voting rights shall also be reckoned on the paid-up value of shares registered in the name(s) of the Member(s) as on Cut-Off Date.
 The Notice contains the following resolutions which are to be transacted by way of postal ballot:

Sl. No.	Type of Resolution	Description of Resolutions
1	Ordinary Resolution	Approval of Material Related Party Transaction(s) with Tata Steel Limited for availing of Inter-Corporate Deposit.
2	Ordinary Resolution	Approval of Material Related Party Transaction(s) with Tata Steel Limited for FY 2023-24 for Operational Matters.

The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company at <https://trf.co.in/investors-relations/stock-exchange-information/>, the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of the Stock Exchanges on which the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com
 Please note that in terms of the requirements specified in the MCA Circulars, the Company is sending this Notice in electronic form only. Accordingly, physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and pre-paid business reply envelope is not being sent to the Members for this Postal Ballot.

In accordance with the provisions of Section 108, 110 and other applicable provisions, if any, of the Act, read with Rules 20 and 22 of the Rules, Regulation 44 of the Listing Regulations, SS-2 and the MCA Circulars, each as amended from time to time, and pursuant to other applicable law and regulations, the Company is providing the Eligible Members the facility to cast their votes through remote e-voting facility for seeking approval in respect of Ordinary Resolution set out in the Postal Ballot Notice. The Company has engaged the services of NSDL for providing remote e-voting facilities to the Eligible Members, to enable them to cast their vote electronically and in a secure manner.
 To facilitate Members to receive this Notice electronically, the Company has made special arrangement with its RTA for registration of e-mail addresses in terms of the MCA Circulars. The Members who have not registered their e-mail addresses with the RTA, are required to provide the same to the RTA, on or before 5.00 p.m. (IST) on Thursday, March 23, 2023, pursuant to which, any Member, may receive on the e-mail address provided by the Member, this Notice and the procedure for the remote e-voting along with the login ID and password for remote e-voting.
 The Process for registration of e-mail addresses is as under:

- The process for one-time registration of e-mail address is as under:**
- For Members who hold shares in electronic form:**
 - Visit the link: https://trfco.in/EmailReg/Email_Register.html
 - Select the name of the Company from dropdown: TRF Limited
 - Enter details in respective fields such as DP ID and Client ID, Name of the Shareholder, PAN details, mobile number and e-mail ID.
 - System will send OTP on mobile number and e-mail ID.
 - Enter OTP received on mobile number and e-mail ID and submit.
 - For Members who hold shares in physical form:**
 - Visit the link: https://trfco.in/EmailReg/Email_Register.html
 - Select the name of the Company from dropdown: TRF Limited
 - Enter details in respective fields such as Folio No. and Certificate no., Name of the Shareholder, PAN details, mobile number and e-mail ID.
 - System will send OTP on mobile number and e-mail ID.
 - Enter OTP received on mobile number and e-mail ID and submit.

After successful submission of the e-mail address, NSDL will e-mail a copy of this Notice along with the remote e-voting user ID and password, to the Member. In case of any queries, Members may write to csq-unit@trfco.in or evoting@nsdl.com
 For permanent registration of their e-mail addresses, Members are requested to register their e-mail addresses, in respect of electronic holdings with their concerned Depository Participants and in respect of physical holdings with the Company's RTA, TSR Consultants Private Limited, at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, E-mail ID: csq-unit@trfco.in
 Those Members who have already registered their e-mail addresses are requested to keep their e-mail addresses validated/updated with their Depository Participants / the Company's RTA, TSR Consultants Private Limited, at C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083, E-mail ID: csq-unit@trfco.in in order to enable serving of notices / documents / Annual Reports electronically to their e-mail addresses.
The voting process shall commence on Wednesday, March 1, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and end on Thursday, March 30, 2023 at 5:00 p.m. (IST).
 Eligible Members are requested to record their assent (FOR) or dissent (AGAINST) through the remote e-voting process not later than 5.00 p.m. (IST) on Thursday, March 30, 2023. Remote e-voting will be disabled by NSDL immediately thereafter and the Members will not be allowed to vote beyond the said date and time. During this period, Members of the Company holding shares either in physical or dematerialised form, as on the Cut-Off Date, as mentioned above may cast their vote electronically. Once the vote on a resolution is cast by a Member, the Member shall not be allowed to modify it subsequently. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only.
 In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager-NSDL at pallavi@nsdl.com or evoting@nsdl.com or contact at NSDL, 4th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400013.
 The Board of Directors of the Company has appointed Mr. P. K. Singh (Membership No. FCS-5878) or failing him Mr. Rohit Prakash Prithi (Membership No. ACS-33602) of M/s P. K. Singh & Associates, Practicing Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the postal ballot process in a fair and transparent manner.
 Upon completion of the scrutiny of the votes cast, the Scrutinizer will submit his report to the Chairman of the Company or to any other person authorised by him. The voting results of Postal Ballot along with the Scrutinizer's report will be made available on the website of the Company at www.trfco.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and intimated to BSE Limited (BSE) and National Stock Exchange of India Limited (NSE), where the shares of the Company are listed, on or before Saturday, April 1, 2023. Additionally, the results will also be placed on the notice board at the Registered Office of the Company.

TRF Limited
 Sd/-
 Prasan Banerjee
 Company Secretary & Compliance Officer
 Membership No. ACS: 29791

February 28, 2023
 Jamshedpur

For All Advertisement Booking

Call : 033-66043800



The Indian Express.
 For the Indian Intelligent.

I choose substance over sensation.
 Inform your opinion with credible journalism.



"Form No. INC-26"

[Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] [Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another] Before the Central Government Regional Director, Eastern Region, Kolkata In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (6) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 - AND - In the matter of Brijlax Motors Private Limited (CIN:U34103WB1995PTC071015) having its Registered Office at 1, Gibson Lane (Beside Orient Cinema), Room No. 102, 1st Floor, Kolkata - 700 069, West Bengal.

Petitioner
 Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extraordinary General Meeting held on 23.12.2022 to enable the company to change its Registered Office from "State of West Bengal" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections to the Registrar of Companies, Eastern Region, Nizam Palace, 3rd Floor, 2344 A, C, Bose Road, Kolkata - 700020, within Twenty One days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below: 1, Gibson Lane (Beside Orient Cinema), Room No. 102, 1st Floor, Kolkata-700069, WB. For and on behalf of Brijlax Motors Private Limited (Bimal Kumar Agarwal) Date : 28.02.2023 Director Place: Kolkata. DIN : 00070873

BANSHIDHAR TRADERS PRIVATE LIMITED

CIN: U51909WB2009PTC133835
 Regd. Office: Room No. 48, 1st Floor, 6B, Asha Chamber, Bentricks Street, Kolkata - 700001
 Email ID: bbanshidhartraders@gmail.com
 FORM NO. INC-26
 [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Before the CENTRAL GOVERNMENT EASTERN REGION, KOLKATA In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 - AND - In the matter of BANSHIDHAR TRADERS PRIVATE LIMITED having its registered office at Room No. 48, 1st Floor, 6B, Asha Chamber, Bentricks Street, Kolkata - 700001

Petitioner... Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 17th November, 2022 to enable the Company to change its Registered Office from the State of "WEST BENGAL" to the state of "MAHARASHTRA". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Eastern Region, Nizam Palace, 3rd Floor, 2344, A, C Bose Road, Kolkata - 700020 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office at the address mentioned above: For and on behalf of the Applicant BANSHIDHAR TRADERS PRIVATE LIMITED Sd/- BHAVIK NIKHIL MERCHANT Place: Kolkata. Director Date: 01.03.2023 DIN: 06389064

DHANKALASH TRADECOM PRIVATE LIMITED

CIN: U51909WB2009PTC134299
 Regd. Office: Room No. 48, 1st Floor, 6B Asha Chamber Bentricks Street, Kolkata - 700001
 Email ID: dhankalashtrade.com@gmail.com
 [Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the Company from one state to another Before the CENTRAL GOVERNMENT EASTERN REGION, KOLKATA In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 - AND - In the matter of DHANKALASH TRADECOM PRIVATE LIMITED having its registered office at Room No. 48, 1st Floor, 6B, Asha Chamber Bentricks Street, Kolkata - 700001

Petitioner... Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 17th November, 2022 to enable the Company to change its Registered Office from the State of "WEST BENGAL" to the state of "MAHARASHTRA". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Eastern Region, Nizam Palace, 3rd Floor, 2344, A, C Bose Road, Kolkata - 700020 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy of the applicant Company at its registered office at the address mentioned above: For and on behalf of the Applicant DHANKALASH TRADECOM PRIVATE LIMITED Sd/- BHAVIK NIKHIL MERCHANT Place: Kolkata. Director Date: 01.03.2023 DIN: 06389064

CLASSIC LEASING AND FINANCE LIMITED

Registered Office: 16A, Everest House, 46C, J.L. Nehru Road, Kolkata-700071
 Phone No.: 033-2288 3104, Email ID: classicleasingfinance@gmail.com
 CIN No.: L65921WB1984PLC037347, Website: www.classicleasing.net
 BSE Limited website: www.bseindia.com
 The Calcutta Stock Exchange Limited website: www.cse-india.com

NOTICE is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of M/s. Classic Leasing & Finance Ltd. will be held on Friday, 24th March, 2023 at 11:00 a.m. at registered office of the company situated at 16A, Everest House, 46C, Jawaharal Nehru Road, Kolkata-700071 to transact the business as set out in the EGM Notice dated 14th February, 2023. Notice convening the EGM relating to the business to be transacted at the Meeting along with the explanatory statement, attendance slip, Proxy Form and the instructions for voting through electronic means has been sent to all the Members through electronic mode/courier/speed post at their registered email address and the same has been completed by 28th February, 2023. The notice convening the EGM is also available on the website of the Company at www.classicleasing.net, website of the BSE Limited & The Calcutta Stock Exchange Limited and on website of Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") at www.evotingindia.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, and SEBI (LODR), Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Extraordinary General Meeting through remote e-voting. The remote e-voting will commence on Tuesday, 21st March, 2023 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Thursday, 23rd March, 2023 at 5:00 P.M. (IST). The remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time. During this period, the members of the Company holding shares as of the cut-off date (record date), i.e., 17th March, 2023 may cast their vote electronically. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e., 17th March, 2023 may approach the Company for issuance of the User Id and Password for exercising their right to vote by electronic means. The shareholders attending the meeting physically or through proxy may cast their vote through ballot/poll at the venue of the meeting. However, in case of vote already casted through remote e-voting, any further voting at venue through ballot/poll shall be treated as invalid and voting through remote e-voting shall prevail. Mr. Muhammad Tausif, Practicing Company Secretary has been appointed as the scrutinizer to scrutinize the e-voting and voting by ballot process in a fair and transparent manner. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The E-voting Results along with Scrutinizers Report shall be available at the websites of the Company, BSE Limited & The Calcutta Stock Exchange Limited and CDSL, respectively. For Classic Leasing & Finance Ltd. Sd/- Chandra Sekhar Sony Managing Director DIN: 06431942

Date : 28th February, 2023
 Place : Kolkata

केनरा बैंक Canara Bank

DEMAND NOTICE Section 13(2)
 LAKE TOWN BRANCH
 111, Lake Town, Block - A, 2nd Floor, Kolkata - 700 089

Ref.: CB/RO/KOL/12692/13(2) RAJENDRA KUMAR SAHOO
 Date : 02.02.2023

To, Rajendra Kumar Sahoo, S/o. Ramchandra Sahoo, 1, Ram Mohan Mullick Garden Lane, Beleghatta, West Bengal, Pin - 700 010.
 Dear Sir/Madam, Sub. : Notice issued under Section 13(2) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002.

The undersigned being the Authorized Officer of Canara Bank, Lake Town Branch (hereinafter referred to as "the Secured Creditor"), appointed under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, (hereinafter referred to as "the Act") do hereby issue this notice to you as under:
 That Sri Rajendra Kumar Sahoo (hereinafter referred to as "the Borrower") has availed credit facility / facilities stated in the Schedule A hereunder and has entered into the security agreement/s in favour of the secured creditor. While availing the said financial assistance, you have expressly undertaken to repay the loan amount/s in accordance with the terms and conditions of the above mentioned agreements.

Nature of Loan (Loan A/c. No.)	Loan Amount	Liability with Interest as on 31.11.2022	Rate of Interest
Housing Loan (269283000006)	Rs. 10,00,000.00	Rs. 6,96,735.34	11.25%

The above said loan / credit facilities are duly secured by way of mortgage of the assets more specifically described in the schedule hereunder, by virtue of the relevant documents executed by you in our favour. Since you had failed to discharge your liabilities as per the terms and conditions stipulated, the Bank has classified the debt as NPA on 14.01.2023. Hence, we hereby issue this notice to you under Section 13(2) of the subject Act calling upon you to discharge the entire liability of Rs. 6,96,735.34 (Rupees Six Lakh Ninety Six Thousand Seven Hundred and Ninety Six and Thirty Four Paisa only) as on date with interest thereon and other expenses, within Sixty (60) days from the date of the notice, failing which we shall exercise all or any of the rights under Section 13(4) of the subject Act. Further, you are hereby restrained from dealing with any of the Secured Assets mentioned in the schedule in any manner whatsoever, without our prior consent. This is without prejudice to any other rights available to us under the subject Act and/or any other law in Force. Your attention is invited to provisions of Sub-section (8) of Section 13 of the SARFAESI Act, in respect of time available, to redeem the Secured Assets. The Demand Notice had also been issued to you by Registered Post Ack due to your last known address available in the Branch record.

Details of Security Assets :-

Details of the Land : All that piece and parcel of plot of Bastu Land measuring about 9 (nine) Cottahs 39 (Thirty Nine) Sq.ft. more or less lying situate at and being Mouza - Chandannagar, Pargana - Anwarpur, C.S. Dag No. 53, R.S. Dag No. 87, L.R. Dag No. 680, C.S. Khatian No. 131, R.S. & L.R. Khatian No. 244, J.L. No. 44, R.S. No. 167, Touzi No. 146, Municipal Holding No. 263 and Premises No. P-5, Basu Nagar, Gate No. 1, P.S. - Barasat, Kolkata - 700 129 within Madhyamgram Municipality, under Ward No. 7, District - North 24 Parganas and **butted and bounded as follows :** On the North - Plot No. 317, On the South - Plot No. 03, On the East - 20 Feet wide Basu Nagar Road, On the West - Plot Nos. 2 & 4.
Details of Flat : EMT of all that piece or parcel of a 12 years old self contained mosaic finished residential flat lying No. 7 on the fourth floor of North West side of said ground plus four storied building namely SHARADA BHAVAN Measuring about 440 Sq.ft. Super Built up area more or less consisting of one Bed rooms, one Dining space, one Kitchen and one toilet and privacy together with undivided, un-demarcated proportionate share of land and all easement right lying situate at and being Municipal Holding No. 263 and Premises No. P-5, Basu Nagar Gate No. 1, P.S. - Barasat, Kolkata - 700 129, within Madhyamgram Municipality, under Ward No. 7, District - North 24 Parganas together with undivided, un-demarcated proportionate share of land and all easement right and the said flat **butted and bounded as follows :** On the North - Side open space, On the South - Flat No. 6, On the East - Side open space, On the West - Back open space.
 Date : 02.02.2023
 Place : Kolkata
 Authorized Officer
 Canara Bank

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD
 Zonal Office, Kolkata North
 377 & 378 G.D. Block, 2nd Floor
 Salt Lake, Sector-III, Kolkata - 700 106

Appendix IV, Rule 8(1) POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)
 Whereas, I the undersigned being the Authorized Officer of the Indian Bank under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 8 and 9 of

